



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1767]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 20, 2011/भाद्र 29, 1933

No. 1767]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 20, 2011/BHADRA 29, 1933

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2011

का.आ. 2116(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 637(अ), तारीख 4 सितम्बर, 1997 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा 3 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, औषध विभाग, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के आदेश सं. का.आ. 1047(अ), तारीख 24 अप्रैल, 2009 को जहां तक उनका सम्बन्ध आईडोक्लोरोहाइड्रोक्सीक्वीनोलिन (आईसीएचक्यू) से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रपुंज औषधि का अधिकतम विक्रय कीमत (उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर को छोड़कर) नियत करती है जिस पर वह बेची जाएगी।

## सारणी

क्र. सं.	प्रपुंज औषधि का नाम	इकाई	अधिकतम विक्रय कीमत (रु.) (उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर छोड़कर)
(1)	(2)	(3)	(4)
"1.	आईडोक्लोरोहाइड्रोक्सीक्वीनोलिन (आईसीएचक्यू)	कि.ग्रा.	1158.00"

2. ये कीमतें/परिशोधित कीमतें औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा 14 के उप-पैरा (1) के तहत इस आदेश की तिथि के 15 दिन के अन्दर लागू होगी। औषध (कीमत नियंत्रण) 1995 के पैरा 14 के उप-पैरा (3) के तहत कीमत सूची भी जारी की जाएगी।

[पीएन/122/2011/एनपीपीए/फा. सं. एफ-9(126)/2010/डीपी/एनपीपीए]

एस. वी. प्रताप, उप-निदेशक

**MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**  
**(Department of Pharmaceuticals)**  
**(NATIONAL PHARMACEUTICALS PRICING AUTHORITY)**

**ORDER**

New Delhi, the 20th September, 2011

**S.O. 2116(E).**— In exercise of the powers, conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Drugs (Prices Control) Order, 1995 read with the notification of the Ministry of Chemicals and Fertilizers number S.O. 637 (E), dated the September 4, 1997 and in supersession of the order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers (National Pharmaceutical Pricing Authority) S.O. number 1047 (E) dated 24th April, 2009, in so far as it relates to Iodochlorohydroxyquinoline (ICHQ), except in respect to things done or omitted to be done before such supersession, the National Pharmaceutical Pricing Authority hereby fixes the price specified in column (4) of the Table given below as the maximum sale price (exclusive of excise duty and local taxes) at which the bulk drug specified in the corresponding entry in column (2) thereof shall be sold.

**TABLE**

Serial number	Name of the bulk drug	Unit	Maximum Sale Price (Rs.) (Exclusive of excise duty and local taxes)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Iodochlorohydroxyquinoline (ICHQ)	Kg.	1158.00

2. This price/revised price shall be made effective within 15 days from the date of this order as required under sub paragraph (1) of paragraph 14 of Drugs (Prices Control) Order, 1995. The necessary price-list should also be issued as required under sub-paragraph (3) of paragraph 14 of the Drugs (Prices Control) Order, 1995.

[PN/122/2011/NPPA/F. No. F-9(126)/2010/DP/NPPA]

S. V. PRATAP, Dy. Director

## आदेश

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2011

**का.आ. 2117(अ).—** राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 637 (अ) तारीख 4 सितम्बर, 1997 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा 3 के उप पैरा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, औषध विभाग, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के आदेश सं. का. आ. 2483(अ) तारीख 11 अक्टूबर, 2010 को जहां तक उनका सम्बन्ध इब्यूप्रोफेन से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रपुंज औषधी का अधिकतम विक्रय कीमत (उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर को छोड़कर) नियत करती है जिस पर वह बेची जाएगी।

## सारणी

क्र.सं.	प्रपुंज औषधि का नाम	ईकाई	अधिकतम विक्रय कीमत (रु०) (उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर छोड़कर)
1	2	3	4
"1.	इब्यूप्रोफेन	किग्रा.	498.00"

2. ये कीमतें/परिशोधित कीमतें औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा 14 उप पैरा (1) के तहत इस आदेश की तिथि के 15 दिन के अन्दर लागू होगी। औषध (कीमत नियंत्रण) 1995 के पैरा 14 के उप पैरा (3) के तहत कीमत सूची भी जारी की जाएगी।

[पीएन/122/2011/एनपीपीए/फा. सं. एफ-9(141)/2011/डीपी/एनपीपीए]

एस. वी. प्रताप, उप-निदेशक

**ORDER**

New Delhi, the 20th September, 2011

**S.O. 2117(E).**— In exercise of the powers, conferred by sub-paragraph (5) of paragraph 3 of the Drugs (Prices Control) Order, 1995 read with the notification of the Ministry of Chemicals and Fertilizers number S.O. 637 (E), dated the September 4, 1997 and in supersession of the order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers (National Pharmaceutical Pricing Authority) S.O. number 2483 (E) dated 11th October, 2010, in so far as it relates to Ibuprofen, except in respect to things done or omitted to be done before such supersession, the National Pharmaceutical Pricing Authority hereby fixes the price specified in column (4) of the Table given below as the maximum sale price (exclusive of excise duty and local taxes) at which the bulk drug specified in the corresponding entry in column (2) thereof shall be sold.

**TABLE**

Serial number	Name of the bulk drug	Unit	Maximum Sale Price (Rs.) (Exclusive of excise duty and local taxes)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ibuprofen	Kg.	498.00

2. This price/revised price shall be made effective within 15 days from the date of this order as required under sub paragraph (1) of paragraph 14 of Drugs (Prices Control) Order, 1995. The necessary price-list should also be issued as required under sub-paragraph (3) of paragraph 14 of the Drugs (Prices Control) Order, 1995.

[PN/122/2011/NPPA/F. No. F-9(141)/2011/DP/NPPA]

S. V. PRATAP, Dy. Director

## आदेश

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2011

**का.आ. 2118(अ).**— राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 637 (अ) तारीख 4 सितम्बर, 1997 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा 3 के उप पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, औषध विभाग, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के आदेश सं. का. आ. 1049(अ) तारीख 24 अप्रैल, 2009 को जहां तक उनका सम्बन्ध रिफैम्पीसीन से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रपुंज औषधी का अधिकतम विक्रय कीमत (उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर को छोड़कर) नियत करती है जिस पर वह बेची जाएगी।

## सारणी

क्र.सं.	प्रपुंज औषधि का नाम	ईकाई	अधिकतम विक्रय कीमत (रु०) (उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर छोड़कर)
1	2	3	4
"1.	रिफैम्पीसीन	किग्रा.	4111.00"

2. ये कीमतें/परिशोधित कीमतें औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा 14 उप पैरा (1) के तहत इस आदेश की तिथि के 15 दिन के अन्दर लागू होगी। औषध (कीमत नियंत्रण) 1995 के पैरा 14 के उप पैरा (3) के तहत कीमत सूची भी जारी की जाएगी।

[पीएन/122/2011/एनपीपीए/फा. सं. एफ-9(123)/2010/डीपी/एनपीपीए]

एस. वी. प्रताप, उप-निदेशक

**ORDER**

New Delhi, the 20th September, 2011

**S.O. 2118(E).**— In exercise of the powers, conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Drugs (Prices Control) Order, 1995 read with the notification of the Ministry of Chemicals and Fertilizers number S.O. 637 (E), dated the September 4, 1997 and in supersession of the order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers (National Pharmaceutical Pricing Authority) S.O. number 1049 (E) dated 24th April, 2009, in so far as it relates to Rifampicin, except in respect to things done or omitted to be done before such supersession, the National Pharmaceutical Pricing Authority hereby fixes the price specified in column (4) of the Table given below as the maximum sale price (exclusive of excise duty and local taxes) at which the bulk drug specified in the corresponding entry in column (2) thereof shall be sold.

**TABLE**

Serial number	Name of the bulk drug	Unit	Maximum Sale Price (Rs.) (Exclusive of excise duty and local taxes)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rifampicin	Kg.	4111.00

2. This price/revised price shall be made effective within 15 days from the date of this order as required under sub paragraph (1) of paragraph 14 of Drugs (Prices Control) Order, 1995. The necessary price-list should also be issued as required under sub-paragraph (3) of paragraph 14 of the Drugs (Prices Control) Order, 1995.

[PN/122/2011/NPPA/F. No. F-9(123)/2010/DP/NPPA]

S. V. PRATAP, Dy. Director